



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{3}{8} \times \frac{2}{8} =$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4} =$$

$$\frac{6}{4} \times \frac{1}{5} =$$

$$\frac{3}{9} \times \frac{6}{4} =$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{6}{7} =$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{2}{8} =$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{6}{8} =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} =$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{1}{9} =$$

$$\frac{4}{6} \times \frac{5}{4} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{3}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{3}{32}$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{32}$$

$$\frac{6}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$$

$$\frac{3}{9} \times \frac{6}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{6}{7} = \frac{9}{7} = 1\frac{2}{7}$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{6}{8} = \frac{5}{12}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{1}{9} = \frac{5}{36}$$

$$\frac{4}{6} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{6}$$